



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11072023-247234  
CG-DL-E-11072023-247234

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2926]  
No. 2926]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 11, 2023/आषाढ 20, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 11, 2023/ASHADHA 20, 1945

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2023

का.आ. 3055(अ).—परमाणु ऊर्जा (संशोधन) अधिनियम, 2015 (2016 की संख्या 5) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 15 मई, 2023 को उस तिथि के रूप में निर्धारित करती है जिस दिन उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

[No. AEA/37(1)/2020-ER]

बिश्वदीप डे, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY  
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2023

S.O. 3055(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 1 of the Atomic Energy (Amendment) Act, 2015 (No. 5 of 2016), the Central Government hereby appoints the 15<sup>th</sup> May, 2023 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[No. AEA/37(1)/2020-ER ]

BISHWADIP DEY, Jt. Secy.

4441 GI/2023